

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 21]	नई दिल्ली, शनिवार, मई 24—मई 30, 2014 (ज्येष्ठ 3, 1936)
No. 21]	NEW DELHI, SATURDAY, MAY 24—MAY 30, 2014 (JYAISTHA 3, 1936)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 2

[PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 5 मई 2014

सं. आई-18011/10/2013-आई.पी.एस.-4--राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 के नियम 3-ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय पुलिस सेवा के बिहार संवर्ग के सदस्य श्री रंजीत कुमार मिश्रा, भा.पु.से. (बिहार : 2007) को दिनांक 10.12.2009 से भारतीय पुलिस सेवा में स्थायी करते हैं।

अरविन्द गौड़, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 7 मई 2014

सं. आई-14011/26/2013-आई पी एस-1(I)-- भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 7 के उप विनियम (3) में निहित उपबंधों का प्रयोग करते हुए संघ लोक सेवा आयोग ने दिनांक 23/04/2014 को

चयन समिति की दिनांक 26/12/2013 की बैठक में इसके द्वारा बनाई गई 2012 की उस चयन सूची को अनुमोदित कर दिया है जिसमें भारतीय पुलिस सेवा के संयुक्त असम मेघालय संवर्ग के असम खण्ड में कुल 03 मौलिक रिक्तियों को भरे जाने हेतु असम पुलिस सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों का नाम शामिल किया गया है:--

चयन सूची 2012

क्रम सं.	अधिकार्यों के नाम (सर्व श्री)	जन्म तिथि
1.	मिहिर गोस्वामी	01/01/1961
2.*	रनदीप कुमार बरूआ	04/11/1966
3.	पी. एस. महन्ता	28/02/1969

*क्रम संख्या 2 पर स्थित अधिकारी के नाम को उनके विरुद्ध लंबित अनुशासनात्मक मामले के निपटान एवं राज्य सरकार से सत्यनिष्ठा प्रमाणपत्र प्रदान करने के अध्यक्षीन अनन्तिम रूप में शामिल किया गया है।

2. माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण गौहाटी पीठ के दिनांक 02/01/2014 को डा. उमेश बर्मन द्वारा ओ.ए. संख्या 338/2013 में दायर एम. ए. संख्या 161/2013 में पारित आदेशानुसार उपयुक्त चयन सूची, ओ.ए. संख्या 338/2013 के परिणाम के अध्यक्षीन होंगी।

हरीश चंद्र राय, अवर सचिव

सं. आई-14011/26/2013-आई पी एस-1 (II)--राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 9 के उप विनियम (1) के साथ पठित भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) विनियम, 1954 के विनियम 9 के उप विनियम (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, असम राज्य पुलिस सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को भारतीय पुलिस सेवा में परीक्षा पर नियुक्त करते हैं तथा उन्हें भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) विनियम, 1954 के विनियम 5 के उप विनियम (1) के अन्तर्गत संयुक्त असम मेघालय संवर्ग का असम खण्ड प्रदान करते हैं:--

चयन सूची 2012

क्रम सं.	अधिकार्यों के नाम (सर्व श्री)	जन्म तिथि
1.	मिहिर गोस्वामी	01/01/1961
2.	पी. एस. महन्ता	28/02/1969

2. माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण गौहाटी पीठ के दिनांक 02/01/2014 को डा. उमेश बर्मन द्वारा ओ.ए. संख्या 338/2013 में दायर एम.ए. संख्या 161/2013 में पारित आदेशानुसार उपयुक्त नियुक्तियां, ओ.ए. संख्या 338/2013 के परिणाम के अध्यक्षीन होंगी।

3. यह नियुक्तियां अधिसूचना जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगी।

हरीश चंद्र राय, अवर सचिव

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 26 मार्च 2014

सं. 13017/06/2011-अ.भा.से.(I)-- केंद्रीय सरकार एतद्वारा, भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 6(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राजस्थान एवं आंध्र प्रदेश की सरकारों की सहमति से श्री पल्लाकोंडा रमेश, भारतीय प्रशासनिक सेवा (राजस्थान:05) की राजस्थान संवर्ग से आंध्र प्रदेश में अंतर-संवर्गीय प्रतिनियुक्ति में दो वर्ष की अवधि हेतु विस्तार का अनुमोदन प्रदान करती है।

एस. एस. शुक्ला, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 27 मार्च 2014

सं. 23012/5/2013-एआईएस-III--वर्ष 2012 में आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के आधार पर भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्त हिमाचल प्रदेश संवर्ग के श्री राकेश कुमार को अपना नाम श्री राकेश कुमार से परिवर्तित कर श्री राकेश कुमार प्रजापति करने की अनुमति प्रदान की जाती है। तदनुसार, भी सरकारी कार्यों के लिए उन्हें श्री राकेश कुमार प्रजापति के नाम से जाना जाएगा।

नवनीत मिश्रा, अवर सचिव

दिनांक 28 मार्च 2014

सं. 14012/27/2013.अ.भा.से.-III--राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली 1954 के नियम-3क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री विकास सिंह 2010, बैच के मणिपुर-त्रिपुरा राज्य संवर्ग के भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्य को दिनांक 30/08/2012 से भारतीय प्रशासनिक सेवा में स्थायी करते हैं।

नवनीत मिश्रा, अवर सचिव

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
(वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग)

नई दिल्ली - 110016, दिनांक 2 मई 2014

सं. ए-19018/35/2002-स्थापना।--राष्ट्रपति, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय में संशोधित लचीली मानार्थ योजना (एफ सी एस) के अंतर्गत यथा-स्थाने आधार पर डॉ. पी.के. दत्ता को 24 अप्रैल, 2014 को पूर्वाह्न से तथा अगले आदेशों तक वेतन बैंड-4 (पीबी-4) में रूपए 37,400—67,000/- + रूपए 8,900/- (ग्रेड वेतन) में वैज्ञानिक 'एफ' के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

कुलदीप कुमार, अवर सचिव

सं. ए-19018/36/2006-स्थापना-I--राष्ट्रपति, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय में संशोधित लचीली मानार्थ योजना (एफ सी एस) के अंतर्गत यथा-स्थाने आधार पर डॉ. (श्रीमती) सुजाता चकलानोबिस को 24 अप्रैल, 2014 को पूर्वाह्न से तथा अगले आदेशों तक वेतन बैंड-4 (पीबी-4) में रूपए 37,400—67,000/- + रूपए 8,900/- (ग्रेड वेतन) में वैज्ञानिक 'एफ' के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

कुलदीप कुमार, अवर सचिव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(आयुष विभाग)

नई दिल्ली -110 023, दिनांक 5 मई 2014

सं. ए-11011/2/2014-स्था.-II(आयुष)--सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से केंद्रीय सचिवालय सेवा के चयन ग्रेड (उप सचिव) के निम्नलिखित अधिकारियों की 30 अप्रैल, 2014 (अपराह्न) से पे बैंड-4 (37,400—67,000/-) + ग्रेड पे 8,700/- रु. में निदेशक के रूप में एक वर्ष की अवधि अथवा अगले आदेशों तक जो भी पहले हो, तदर्थ आधार पर पदोन्नति द्वारा नियुक्ति की जाती है:---

- (i) श्री एस. श्रीनिवास; और
- (ii) श्री आर. के. सूद

2. उपर्युक्त अधिकारियों की तदर्थ पदोन्नति माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली में लंबित रिट याचिका सं. 4097/2011 (अरुण गौड़ बनाम गरिमा सिंह और अन्य), रिट याचिका सं. 4616/2011 (वी.एस. पांडेय और अन्य बनाम गरिमा सिंह और अन्य), रिट याचिका सं. 7619/2011(यूपीएससी बनाम गरिमा सिंह और अन्य), रिट याचिका सं. 2176/2012(भारत संघ बनाम गरिमा सिंह और अन्य) और अन्य संबंधित रिट याचिकाएं- रिट याचिका (सी) 2523/2012 (भारत संघ बनाम अनन्त किशोर शरण), रिट याचिका (सी) 2524/2012 (भारत संघ बनाम श्रेषा और अन्य), रिट याचिका (सी) 2525/2012 (भारत संघ बनाम सैयद एरम रिजवी और अन्य), रिट याचिका (सी) 2526/2012 (भारत संघ बनाम संदीप कुमार गुप्ता) और रिट याचिका (सी) 2527/2012 (भारत संघ बनाम सौम्या चट्टोपाध्याय और अन्य) में अंतिम निर्णय के अध्यक्षीन है और उपरोक्त को छोड़कर यह किसी भी सम्बद्ध मामले में किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किसी अन्य आदेश के भी अध्यक्षीन है और डीओपीटी के दिनांक 30.4.2014 के आदेश सं. 3/1/2011-सीएस-1(डी) के पैरा-3 में अनुबद्ध शर्तों के भी अध्यक्षीन है।

चंद्र शेखर, अवर सचिव

कृषि मंत्रालय

(पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 9 मई 2014

सं. 3-51/2010-मा. (प्रशासन)-- राष्ट्रपति, श्री निशान्त एस. को केंद्रीय मात्स्यिकी नौचालन और इंजीनियरिंग प्रशिक्षण केन्द्र (सिफनेट), कोच्चि में 5,400/- रुपए के ग्रेड वेतन के साथ 15,600—39,100/- रुपए के वेतनमान में पे-बैंड (पी.बी.-3) में 15 अप्रैल, 2014 (पूर्वाह्न) से ज्येष्ठ अनुदेशक (विद्युत) (सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय) के पद पर नियुक्त करते हैं।

- 2. वे अपनी नियुक्ति की तारीख से 1 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन पर रहेंगे।

योगेन्द्र कुमार, अवर सचिव

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग

नई दिल्ली-110003, दिनांक 6 मई 2014

सं. 15-12/2014-स्थापना-राष्ट्रपति, श्री अजय कुमार, आईएएस (बिहार: 1984) को सहर्ष राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

- 2. श्री अजय कुमार ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में संयुक्त सचिव के पद का कार्यभार दिनांक 5 मई 2014 (पूर्वाह्न) से ग्रहण कर लिया है।

अरुणव सेनगुप्ता, अवर सचिव

संचार एवं सूचना प्रायोगिकी मंत्रालय
इलेक्ट्रानिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
मानकीकरण, परीक्षण एवं गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय
नई दिल्ली -110 003, दिनांक 16 अप्रैल 2014

संख्या 16(3)/2009-पीए(टीए) वोल्यम-IV--राष्ट्रपति ने इस निदेशालय के वेतन बैंड-4 (₹ 37,400—67,000/- + ग्रेड वेतन ₹ 8,900/-) में कार्यरत निम्न वैज्ञानिक 'एफ' को वेतन बैंड-4 (₹ 37,400—67,000/- + ग्रेड वेतन 10,000/-) में वैज्ञानिक 'जी' के पद पर दिनांक 11.04.2014 (पूर्वाह) से नियुक्त किया है:--

- i) सुश्री वीना एस.कामथ
- ii) श्री बी.के.मंडल

एस. रामाकृष्णन, संयुक्त निदेशक

दिनांक 17 अप्रैल 2014

संख्या 16(3)/2009-पीए(टीए) वोल्यम-IV--राष्ट्रपति ने इस निदेशालय के वेतन बैंड-4 (₹ 37,400—67,000/- + ग्रेड वेतन ₹ 8,900/-) में कार्यरत निम्न वैज्ञानिक 'एफ' को वेतन बैंड-4 (₹ 37,400—67,000/- + ग्रेड वेतन 10,000/-) में वैज्ञानिक 'जी' के पद पर दिनांक 11.04.2014 (पूर्वाह) से नियुक्त किया है:--

- i) सुश्री रविंद्र साही

एस. रामाकृष्णन, संयुक्त निदेशक

दिनांक 22 अप्रैल 2014

सं. 1(1)2013-पीए(टी.ए)--राष्ट्रपति महोदय ने मानकीकरण, परीक्षण तथा गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय, इलेक्ट्रानिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में निम्नलिखित अधिकारियों को वेतन बैंड -3 ₹ 15,600—39,100/- + ग्रेड वेतन ₹ 5,400/- में उनके नाम के समक्ष दर्शाई गई तारीख से वैज्ञानिक 'बी' के पद पर नियुक्त किया है ।

1. श्री सुनील कुमार यादव - 4.4.2014 (पूर्वाह)
2. श्री समीर कुमार - 4.4.2014 (पूर्वाह)
2. उपरोक्त अधिकारी वैज्ञानिक 'बी' के पद पर नियुक्ति की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए परीवीक्षाधीन रहेंगे ।

एस. रामाकृष्णन, संयुक्त निदेशक

दिनांक 01 मई 2014

सं. (1)2013-पीए(टी.ए)-- राष्ट्रपति, महोदय ने मानकीकरण, परीक्षण तथा गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय, इलेक्ट्रानिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में श्री अंकित जैन को वेतन बैंड -3 ₹ 15,600—39,100/- + ग्रेड वेतन ₹ 5,400/- में दिनांक 02.04.14 से वैज्ञानिक 'बी' के पद पर नियुक्त किया है ।

2. उपरोक्त अधिकारी वैज्ञानिक 'बी' के पद पर नियुक्ति की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए परीवीक्षाधीन रहेंगे ।

एस. रामाकृष्णन, संयुक्त निदेशक

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi-110001, the 5th May 2014

No.I-18011/10/2013-IPS.IV--In exercise of powers conferred by Rule-3A of Indian Police Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm Shri Ranjit Kumar Mishra, IPS (BH:2007) in the Indian Police Service with effect from 10.12.2009.

ARVIND GAUR, Under Secy.

New Delhi, the 7th May 2014

No. I-14011/26/2013-IPS.I (I)--In exercise of the provisions contained in sub-regulation (3) of Regulation 7 of the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the Union Public Service Commission has on 23.04.2014, approved the Select List of the year 2012 prepared by the Selection Committee in its meeting held on 26.12.2013, containing the names of the following State Police Service Officers of Assam, towards filling up 3 substantive vacancies in the IPS of Assam Segment of Joint Assam-Meghalaya Cadre:--

Select List 2012

S.No.	Name of the officer (Smt./Shri)	Date of Birth
1	Mihir Goswami	01.01.1961
2*	Randeep Kumar Barua	04.11.1966
3	P. S. Mahanta	28.02.1969

* The officer at Sl No. 2 has been included in the list provisionally subject to clearance in the disciplinary proceedings pending against him and grant of integrity Certificate by the State Govt.

2. As per the order dated 02.01.2014 of the Hon'ble CAT, Guwahati Bench in the Misc. Petition No.161/2013 in O.A. No. 338/2013, the aforesaid Select List shall be subject to the outcome of the O.A. No. 338/2013 filed by Dr. Umesh Barman Vs Union of India and others.

HARISH CHANDRA RAI, Under Secy.

No. I-14011/26/2013-IPS.I (II)--In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 9 of the Indian Police Service (Recruitment) Rules, 1954, read with sub-regulation (1) of regulation 9 of the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the President is pleased to appoint the following members of Assam Police Service to the Indian Police Service on probation and to allocate them to the Assam Segment of Joint Assam-Meghalaya Cadre under sub-rule (1) of the rule 5 of the Indian Police Service (Cadre) Rules, 1954 :--

Select List 2012

S.No.	Name of the officer (Smt./Shri)	Date of Birth
1	Mihir Goswami	01.01.1961
2	P. S. Mahanta	28.02.1969

2. As per the order dated 02.01.2014 of the Hon'ble CAT, Guwahati Bench in the Misc. Petition No. 161/2013 in O.A. No. 338/2013, the aforesaid appointments shall be subject to the outcome of the O.A. No. 338/2013 filed by Dr. Umesh Barman Vs Union of India and others.

3. The appointments will take effect from the date of issuance of this notification.

HARISH CHANDRA RAI, Under Secy.

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES & PENSIONS

(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi, the 18th March 2014

No. 13017/06/2011-AIS(I)-- In exercise of the powers conferred by Rule 6(1) of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954 and with the concurrence of the Governments of Rajasthan and Andhra Pradesh the Central Govt. hereby

accords approval for the extension of inter cadre deputation of Shri Pallakonda Ramesh, IAS(RJ:05) from Rajasthan cadre to Andhra Pradesh cadre for a period of two years.

S.S. SHUKLA, Under Secy.

New Delhi, the 27th March 2014

No. 23012/5/2013-AIS-III—Shri Rakesh Kumar, Appointed to the Indian Administrative Service on the basis of the Civil Services Examination held in 2012 and borne on the cadre of Himachal Pradesh, has been permitted to change his name from Shri Rakesh Kumar to Shri Rakesh Kumar Prajapati. He will accordingly be recognised as Shri Rakesh Kumar Prajapati for all official purposes.

NAVNEET MISHRA, Under Secy.

The 28th March 2014

No. 14012/27/2013-AIS-III—In exercise of the powers conferred by rule 3-A of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm Shri Vikas Singh, member of the Indian Administrative Service borne on the State Cadre of Manipur-Tripura of 2010 batch, in the Indian Administrative Service, with effect from 30.08.2012.

NAVNEET MISRA, Under Secy.

MINISTRY OF SCIENCE & TECHNOLOGY
(DEPARTMENT OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH)

New Delhi – 110016, the 2nd May 2014

No. A-19018/35/2002-Estt--The President is pleased to appoint Dr. P.K.Dutta as Scientist 'F' in the Department of Scientific and Industrial Research, Ministry of Science & Technology in the Pay Band (PB-4) of Rs. 37400-67000/- + Rs.8900/- (GP) on in-situ basis under the Modified Flexible Complementing Scheme (FCS) with effect from the forenoon of 24th April, 2014 and until further orders.

KULDIP KUMAR, Under Secy.

No. A-19018/36/2006-Estt--The President is pleased to appoint Dr. (Mrs.) Sujata Chaklanobis as Scientist 'F' in the Department of Scientific and Industrial Research, Ministry of Science & Technology in the Pay Band (PB-4) of Rs. 37400-67000/- + Rs.8900/- (GP) on in-situ basis under the Modified Flexible Complementing Scheme (FCS) with effect from the forenoon of 24th April, 2014 and until further orders.

KULDIP KUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE
(DEPARTMENT OF AYUSH)

New Delhi – 110023, the 5th May 2014

No. A.11011/2/2014-E-II(AYUSH)--Approval of the Competent Authority is hereby conveyed to the appointment by promotion on ad-hoc basis of the following Officers of the Selection Grade (Deputy Secretary) of the Central Secretariat Service as Director in Pay Band 4 (Rs. 37400 – 67000) with Grade Pay of Rs. 8700/- for a period of one year w.e.f. 30th April, 2014 (A.N.) or until further orders, whichever is earlier:

- (i) Shri S. Srinivas; and
- (ii) Shri R.K. Sood

2. The ad-hoc promotions of the aforesaid officers are subject to the final outcome of the pending Writ Petition No. 4097/2011 (Arun Gaur Vs. Garima Singh & Ors), W.P. No. 4616/2011 (V.S. Pandey & Ors Vs. Garima Singh & Ors), W.P. No. 7619/2011 (UPSC Vs. Garima Singh & Ors), W.P. No. 2176/2012 (Union of India Vs. Garima Singh & Ors) and other connected Writ Petitions Nos. W.P. (C) 2523/2012 (Union of India Vs. Anant Kishore Saran), W.P.(C) 2524/2012 (Union of India Vs. Shresha and Anr), W.P. (C) 2525/2012 (Union of India Vs. Syed Eram Rizvi and Anr), W.P.(C) 2526/2012 (Union of India Vs. Sandeep Kumar Gupta) and W.P. (C) 2527/2012 (Union of India Vs. Soumya Chattopadhyay and Anr) in the

High Court of Delhi and also any other order by any competent court in any of the connected matters, apart from the above and also subject to the conditions as stipulated in para-3 of the DOP&T's Order No. 3/1/2011-CS.I(D), 30.04.2014.

CHANDRA SHEKHAR, Under Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE

(DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY, DAIRYING & FISHERIES)

New Delhi, the 9th May, 2014

No.3-51/2010--Fy.(Admn.)--The President is pleased to appoint Shri Nishanth. S. to the post of Senior Instructor (Electrical) in the Pay Band (PB-3) of Rs. 15600-39100 with Grade Pay of Rs. 5400/- (General Central Service Group-`A' Gazetted, non-Ministerial) in Central Institute of Fisheries Nautical and Engineering Training (CIFNET), Kochi w.e.f. 15.04.2014 (Forenoon).

2. He will be on probation for a period of one year from the date of his appointment.

YOGINDER KUMAR, Under Secy.

NATIONAL COMMISSION FOR MINORITIES

New Dehli-110003, the 5th May 2014

No. 15-12/2014-Estt.--The President is pleased to appoint Shri Ajoy Kumar, IAS (BH : 1984) as Joint Secretary in the National Commission for Minorities.

2. Shri Ajoy Kumar has assumed charge of the office of the Joint Secretary, National Commission for Minorities w.e.f. 5th May, 2014 (Forenoon).

ARUNAVA SENGUPTA, Under Secy.

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(DEPARTMENT OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY)

STANDARDISATION, TESTING & QUALITY CERTIFICATION DIRECTORATE

New Delhi-110 003, the 16th April 2014

No. 16(3)/2009-PA(TA) Vol. IV--The President is pleased to appoint the following Scientist 'F' in the Pay Band-4 (Rs.37400-67000/- + Grade Pay Rs.8900/-) of this Directorate as Scientist 'G' in the Pay Band-4 (Rs.37400-67000/- + Grade Pay Rs.10000/-) with effect from 11.04.2014 (F.N.):

- i) Ms. Veena S. Kamath
- ii) Shri B.K.Mondal

S.RAMAKRISHNAN, Jt. Dir.

The 17th April 2014

No. 16(3)/2009-PA(TA) Vol. IV – The President is pleased to appoint the following Scientist 'F' in the Pay Band-4 (Rs.37400-67000/- + Grade Pay Rs.8900/-) of this Directorate as Scientist 'G' in the Pay Band-4 (Rs.37400-67000/- + Grade Pay Rs.10000/-) with effect from 11.04.2014 (F.N.):

- i) Ms. Ravinder Sahi

S.RAMAKRISHNAN, Jt. Dir.

The 22nd April 2014

No. 1(1)/2013-PA(TA)--The President is pleased to appoint the following as Scientist 'B' in STQC Directorate, Department of Electronics and Information Technology in the Pay Band - 3 of Rs.15600-39100 + Grade Pay Rs. 5400/-.

1. Sh. Sunil Kumar Yadav w.e.f. 4.4.2014 (F/N)

2. Sh. Sameer Kumar w.e.f. 4.4.2014 (F/N)

2. The above officers shall be on probation for a period of one year from the date of their appointment as Scientist 'B'.

S. RAMAKRISHNAN, Jt. Dir.

The 1st May 2014

No. 1(1)/2013-PA(TA)--The President is pleased to appoint Shri Ankit Jain as Scientist 'B' w.e.f. 02-04-2014 (F/N) in STQC Directorate, Department of Electronics and Information Technology in the Pay Band - 3 of Rs.15600-39100 + Grade Pay Rs. 5400/-

2. The above officer shall be on probation for a period of one year from the date of their appointment as Scientist 'B'.

S. RAMAKRISHNAN, Jt. Dir.

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2014

PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS,
N.I.T. FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2014

www.dop.nic.in